

सं. 28 : एसजीएल लेनदेनों के आधार पर आधारित भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत प्रतिफल*

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2008				2009	
					जून	फर.	नव.	दिसं.	जन.	फर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5 वर्ष से कम में समाप्त									
1	5.48% 2009	6.88	7.63	7.51	7.44	7.41	7.03	5.82	4.73	4.80
2	6.65% 2009	7.51	7.66	6.89	7.45	7.46	6.83	5.67	4.66	4.68
3	6.99% 2009	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	7.00% 2009	7.50	8.09	7.80	7.35	8.00	—	—	4.91	5.37
5	11.50% 2009	7.52	7.95	7.31	—	8.67	—	6.15	7.14	—
6	11.99% 2009	7.25	7.65	7.58	7.34	7.70	7.08	5.57	4.63	4.85
7	5.87% 2010	—	7.63	7.61	7.45	7.43	7.04	5.74	4.63	4.67
8	6.00% 2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	6.20% 2010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	7.50% 2010	7.77	7.35	7.80	7.80	7.43	8.12	6.78	4.88	6.50
11	7.55% 2010	7.42	7.69	6.84	7.62	7.42	7.10	6.20	4.61	4.78
12	8.75% 2010	7.98	—	7.87	—	—	—	—	6.41	—
13	11.30% 2010	7.39	7.70	7.87	7.52	7.49	7.37	6.04	4.84	4.75
14	11.50% 2010	7.43	7.70	6.32	7.42	7.62	7.55	6.26	4.71	5.37
15	12.25% 2010	7.45	7.55	7.12	7.42	7.51	7.30	6.28	4.93	4.70
16	12.29% 2010	7.50	7.78	8.03	7.54	7.55	—	—	—	5.02
17	5.03% 2011	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	6.57% 2011	—	7.37	7.49	7.33	7.45	7.16	6.01	4.71	4.90
19	8.00% 2011	7.86	7.93	7.12	—	—	7.51	5.53	5.27	6.62
20	9.39% 2011	7.52	7.78	7.33	7.49	7.60	7.30	6.28	5.11	5.14
21	10.95% 2011	7.33	7.94	7.28	7.55	7.68	—	6.41	—	—
22	11.50% 2011	7.43	7.82	6.32	—	—	7.35	5.67	4.84	5.81
23	12.00% 2011	7.97	7.95	6.92	—	—	7.83	6.93	5.32	5.70
24	12.32% 2011	7.59	7.85	7.22	7.80	7.61	—	—	5.15	5.12
25	6.72% 2012	6.93	7.87	7.75	—	8.52	7.75	—	—	—
26	6.85% 2012	7.58	7.80	6.39	7.48	7.56	7.75	6.80	5.67	5.65
27	7.40% 2012	7.55	7.83	7.61	7.49	7.44	7.52	6.34	5.69	5.67
28	9.40% 2012	7.60	7.87	7.16	—	7.55	—	6.78	5.61	5.58
29	10.25% 2012	7.88	8.08	8.43	—	—	7.21	—	9.24	6.78
30	11.03% 2012	7.81	8.10	6.88	—	7.66	8.05	6.75	6.04	5.68
31	7.27% 2013	7.58	7.66	7.32	7.50	7.48	7.35	6.21	5.69	5.87
32	9.00% 2013	7.86	8.25	7.80	—	—	7.84	6.93	5.89	6.27
33	9.81% 2013	7.85	8.11	6.92	—	—	—	6.71	5.92	—
34	12.40% 2013	7.93	7.99	8.05	8.05	7.61	7.74	6.34	6.07	6.66
	5 और 10 वर्ष के बीच समाप्त									
35	6.72% 2014	8.05	7.89	—	—	—	—	—	—	—
36	7.37% 2014	7.74	7.86	7.49	7.52	7.52	7.50	6.35	5.97	6.19
37	7.56% 2014	—	—	6.25	—	—	7.33	6.18	5.73	5.93
38	10.00% 2014	7.71	8.09	8.78	7.83	7.52	9.62	6.86	—	—
39	10.50% 2014	7.83	7.85	7.97	7.72	7.67	9.57	6.50	5.50	6.11
40	11.83% 2014	7.84	7.94	7.97	7.68	7.59	7.73	6.71	6.44	6.25
41	7.38% 2015	7.70	7.95	7.75	7.74	7.48	7.53	6.37	5.96	6.47
42	9.85% 2015	7.76	8.01	7.88	—	—	—	6.85	—	—
43	10.47% 2015	7.59	8.06	7.55	8.01	—	7.72	6.74	6.51	7.16
44	10.79% 2015	7.65	8.02	8.47	—	—	—	—	6.38	6.45
45	11.43% 2015	7.92	8.06	7.02	—	—	8.16	5.95	—	6.45
46	11.50% 2015	7.91	8.12	7.61	7.90	7.80	7.58	6.56	6.53	6.41
47	5.59% 2016	7.66	8.18	7.13	—	—	—	6.13	5.92	—
48	7.59% 2016	7.79	7.91	7.39	7.58	7.59	7.58	6.42	6.19	6.52

सं. 28 : एसजीएल लेनदेनों के आधार पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर परिशोधनगत प्रतिफल* (समाप्त)

(वार्षिक प्रतिशत)

क्र. सं.	ऋण का नाम	2006-07	2007-08	2008-09	2008				2009	
					जन.	फर.	नव.	दिसं.	जन.	फर.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	10.71% 2016	7.95	7.89	6.44	7.39	7.43	—	—	6.44	—
50	12.30% 2016	8.21	8.41	8.17	—	8.20	8.24	6.99	6.46	6.59
51	7.46% 2017	7.81	7.88	7.03	7.66	7.54	7.45	6.53	6.13	6.61
52	7.49% 2017	7.82	7.87	7.65	7.60	7.53	7.66	6.51	6.18	6.71
53	7.99% 2017	—	7.85	7.90	7.57	7.53	7.64	6.54	6.46	6.67
54	8.07% 2017	7.80	7.93	7.34	7.62	7.51	7.70	6.52	6.13	6.58
55	5.69% 2018	7.95	7.99	7.68	7.74	7.69	—	6.49	6.05	6.25
56	6.25% 2018	7.91	8.03	7.18	7.75	7.68	7.70	6.55	6.03	6.49
57	8.24% 2018	—	—	7.68	—	—	7.47	6.16	5.71	6.36
58	10.45% 2018	8.05	8.19	7.07	—	—	—	6.25	—	—
59	12.60% 2018	7.91	—	8.06	—	—	8.12	7.16	—	—
10 और 15 वर्ष के बीच समाय										
60	5.64% 2019	8.12	8.07	7.69	7.93	7.59	7.81	6.65	6.04	6.43
61	6.05% 2019	7.91	8.11	7.18	7.85	7.62	7.74	6.58	6.09	6.02
62	10.03% 2019	7.83	8.22	6.90	—	—	—	6.51	6.32	6.37
63	6.35% 2020	7.95	8.12	7.23	—	7.97	—	6.40	6.23	6.57
64	10.70% 2020	8.00	8.48	7.58	—	—	9.52	7.25	6.98	6.70
65	11.60% 2020	7.73	8.00	8.11	7.84	7.62	8.07	—	6.61	—
66	7.94% 2021	8.07	8.11	7.50	7.73	7.57	7.67	6.31	5.94	7.19
67	10.25% 2021	8.07	8.11	7.89	8.12	7.92	8.24	6.61	6.48	6.78
68	5.87% 2022	8.02	6.87	7.48	6.17	—	8.18	6.50	6.53	—
69	8.08% 2022	—	7.90	—	—	—	—	—	—	—
70	8.13% 2022	—	7.90	—	—	—	—	—	—	—
71	8.20% 2022	—	7.95	7.91	7.74	7.71	7.70	6.76	6.56	6.97
72	8.35% 2022	8.02	7.99	7.97	7.73	7.72	7.84	6.72	6.53	7.12
73	6.17% 2023	8.01	8.18	7.45	7.91	7.94	7.86	6.70	6.28	6.88
74	6.30% 2023	8.01	8.08	6.81	7.85	8.15	8.03	6.72	6.48	6.95
15 वर्ष के बाद समाय										
75	10.18% 2026	7.86	8.26	8.04	8.10	8.48	8.33	8.28	7.18	—
76	8.24% 2027	8.19	8.06	8.39	8.06	—	7.98	7.07	6.83	7.26
77	8.26% 2027	—	8.21	8.34	—	—	8.26	7.64	6.96	—
78	6.01% 2028	8.02	8.28	7.87	7.97	7.90	7.97	7.09	6.54	6.97
79	6.13% 2028	8.02	8.31	7.59	7.98	7.92	8.15	6.97	6.63	7.11
80	7.95% 2032	8.07	8.19	8.24	7.88	7.84	8.05	6.98	6.82	7.45
81	8.28% 2032	—	—	8.32	—	—	8.05	7.03	7.01	7.40
82	8.32% 2032	—	7.94	—	—	7.94	—	—	—	—
83	8.33% 2032	—	—	82.61	—	—	—	—	—	—
84	7.5% 2034	8.19	8.38	7.62	7.88	8.11	8.32	6.99	6.97	7.47
85	7.40% 2035	8.14	8.27	7.54	8.05	7.90	8.15	7.09	6.95	7.30
86	8.33% 2036	8.13	8.28	8.08	7.89	7.85	7.98	7.01	6.92	7.50
87	6.83% 2039	—	—	7.16	—	—	—	—	6.93	7.30

* : मासिक परिशोधनगत प्रतिफल की गणना अप्रैल 2000 से प्रत्येक कारोबारगत प्रतिभूति में लेनदेन से प्राप्त दैनिक भारित औसत प्रतिफल के मध्यमान के रूप में की गई है। भारांक का परिकलन उक्त प्रतिभूति में लेनदेन के कुल मूल्य में उक्त प्रतिभूति के लेनदेन के अंश के रूप में किया गया है। अप्रैल 2000 से पहले इसमें परिशोधनगत प्रतिफल को भारांक नहीं दिया जाता था और प्रत्येक प्रतिभूति के दैनिक मूल्य के औसत के रूप में उसकी गणना की जाती थी।

@ : क्रय-विक्रय विकल्प के साथ जारी भारत सरकार की प्रतिभूतियां निर्गम की तारीख से 5 वर्ष पर या उसके बाद व्यवहार में आ सकती हैं।

.. : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति व्यापार हेतु उपलब्ध नहीं थी।

.. : दर्शाता है कि संबंधित प्रतिभूति का माह के दौरान लेन-देन शून्य/नगण्य था।